

## 2020-21 में DCSD स्कूल के फिर से खुलने का सूचना चित्र

DeKalb काउंटी स्कूल जिले का विजन शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमारे छात्रों के समुदाय को प्रेरित करना है। हमारा लक्ष्य छात्र की सफलता, उच्च शिक्षा, रोजगार और जीवन भर सीखने की प्रेरणा सुनिश्चित करना है। हम इस विजन और लक्ष्य को – हर दिन, यहां तक कि वर्चुअल रूप से भी, पूरे जिले में वास्तविक बना रहे हैं।

### सामुदायिक भागीदारी

छात्रों और परिवारों को हर तरह की सेवा प्रदान करने के लिए जिला सामुदायिक भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा।

### भोजन की सेवा

छात्रों को भोजन की सेवा प्रदान की जाएगी (बस मार्ग, गली पिक-अप)।

### माता-पिता और परिवार का सहयोग

माता-पिता, अभिभावकों और परिवारों को वर्चुअल सशक्तीकरण कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा जो डिजिटल रूप से छात्रों के साथ काम करते समय सहायक होगा।

### वर्चुअल शिक्षा / शिक्षण

नेता, शिक्षक और सहायक कर्मचारी पेसेवर शिक्षण में भाग लेंगे और छात्रों के लिए समकालिक और/या असमकालिक कठिन पाठों को तैयार करेंगे ताकि दूरस्थ शिक्षण के लिए तैयारी की जा सके।

### सफाई

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, Georgia के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और DeKalb स्वास्थ्य बोर्ड के मार्गदर्शन के आधार पर सामग्री प्रदान की गई है और उचित सफाई तकनीकों

के प्रोटोकॉल को साझा किया जाएगा  
और उनका पालन किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी पहुंच  
छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक  
बनाने के लिए जिला प्रौद्योगिकी (क्रोमबुक और एक्सेस पॉइंट)  
तक पहुंच प्रदान करेगा।

सुरक्षा एवं स्वास्थ्य  
स्कूल के नर्सों और कर्मचारियों के साथ रोकथाम के तरीकों को  
साझा किया जाएगा। कोविड19 से संबंधित  
डेटा की निगरानी की जाएगी और मार्गदर्शन के लिए इसकी  
सूचना DeKalb के स्वास्थ्य बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।

छात्रों की सहायता  
वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्कूल-काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और अन्य  
कर्मचारियों द्वारा सामाजिक-भावनात्मक  
सहायता और मार्गदर्शन प्रदान की जाएगी।  
शैक्षणिक वातावरण को नेविगेट करने में मदद के लिए  
परिवारों के लिए व्याख्या और अनुवाद सहायता उपलब्ध होगी।